

# Jos

## Chapter 6

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1  
ס — בא: —  
आता-है  
H0935  
ואין —  
और-नहीं  
H0369  
יוצא —  
निकलता-है  
H3318  
אין —  
नहीं  
H0369  
ישראל —  
इसाएल-के  
H3478  
בני —  
पुत्रों  
מפני —  
सामने-से  
H6440  
ומסגרת —  
और-तालाबंद  
H5462  
סגרת —  
बंद  
H5462  
ויריחו —  
और-यरीहो  
H3405

यरीहो नगर के द्वार बन्द थे। उस नगर के लगे भयभीत थे क्योंकि इसाएल के लोग निकट थे। कोई नगर में नहीं जा रहा था और कोई नगर से बाहर नहीं आ रहा था।

2  
מלכה —  
उसके-राजा  
H4428  
ואת —  
और-को  
H0853  
יריחו —  
यरीहो  
H3405  
את —  
को  
H0853  
בדרך —  
तेरे-हाथ-में  
H3027  
נתתי —  
दिया-है-मैंने  
H5414  
ראה —  
देख  
H7200  
יהושע —  
यहोशू  
H3091  
אל —  
से  
H0413  
יהוה —  
यहोवा-ने  
H3068  
ויאמר —  
और-कहा  
H0559  
גבורי —  
वीर  
H1368  
החיל: —  
योद्धा-के  
H2428

तब यहोवा ने यहोशू से कहा, “देखो, मैंने यरीहो नगर को तुम्हारे अधिकार में दे दिया है। इसका राजा और इसके सारे सैनिक तुम्हारे अधीन हैं।

3  
זה —  
ऐसे  
H3541  
אחת —  
एक  
H0259  
פעם —  
बार  
H6471  
העיר —  
नगर  
את —  
को  
H0853  
הקוף —  
चक्कर-लगाना  
H4421  
המלחמה —  
युद्ध-के  
H4421  
אנשי —  
पुरुष  
H0376  
כל —  
सब  
H3605  
העיר —  
नगर  
את —  
को  
H0853  
וסבתם —  
और-घेरना  
H5437  
תעשה —  
करना  
H8337  
ששת —  
छह  
H8337  
ימים: —  
दिन  
H3117

हर एक दिन अपनी सेना के साथ नगर के चारों ओर अपना बल प्रदर्शन करो। यह छः दिन तक करो।

4  
תסבו —  
घेरना  
H5437  
השביעי —  
सातवें  
H7637  
וביום —  
और-दिन-में  
H3117  
הארון —  
संदूक-के  
H0727  
לפני —  
आगे  
H6440  
היובלים —  
मेढ़े-के-सींग-के  
H3104  
שופרות —  
नरसिंगे  
H7782  
שבעה —  
सात  
H7651  
ישאו —  
उठाएंगे  
H5375  
כהנים —  
याजक  
H3548  
ושבעה —  
और-सात  
H7651  
את —  
को  
H0853  
העיר —  
नगर  
שבע —  
सात  
H7651  
פעמים —  
बार  
H6471  
והכהנים —  
और-याजक  
H3548  
יתקעו —  
बजाएंगे  
H8628  
בשופרות: —  
नरसिंगों-में  
H7782

बकरे के सींगों की बनी तुरहियों को लकेर सात याजकों को चलने दो। याजकों से कहो कि वे पवित्र सन्दूक के सामने चलें। सातवें दिन नगर के चारों ओर सात फेरे करो, याजकों से कहो कि वे चलते समय तुरही बजाएं।

5  
יריעו —  
ललकारेंगे  
H7321  
השופר —  
नरसिंगे-की  
H7782  
קול —  
आवाज  
את —  
को  
H0853  
(כשמעכם) —  
सुनते-समय-तुम  
H8085  
בשמעכם] —  
सुनते-समय-तुम  
H8085  
היובל —  
मेढ़े-के  
H3104  
בקרן —  
सींग  
H4900  
ובמשך —  
खींचते-समय  
H4900  
והיא —  
और-होगा  
H1961  
כל —  
सब  
H3605  
העם —  
ललकार  
H8643  
וגדולה —  
बड़ी  
H5307  
חומת —  
दीवार  
H2346  
העיר —  
नगर-की  
H8478  
ועלו —  
और-चढ़ेंगे  
H5927  
העם —  
ललकार  
H8478  
איש —  
पुरुष  
H0376  
נגדו: —  
अपने-सामने  
H5048

याजक तुरहियों से प्रचन्द ध्वनि करेंगे। जब तुम वह ध्वनि सुनो तो तुम सब लोगों से गर्जन आरम्भ करने को कहो। जब तुम ऐसा करोगे तो नगर की दीवारें गिर जाएंगी। तब तुम्हारे लोग सीधे नगर में जाएंगे।”

6 וַיִּקְרָא יְהוֹשֻׁעַ בֶּן-נוּן אֶל-הַכֹּהֲנִים וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם שְׂאוּ אֶת-אֲרוֹן הַבְּרִית  
 और-बुलाया और-नून-के पुत्र को याजकों और-कहा उनसे उठाओ को संदूक की वाचा-की  
[H1285](#) [H0727](#) [H0853](#) [H5375](#) [H0413](#) [H0559](#) [H3548](#) [H0413](#) [H5126](#) [H3091](#) [H7121](#)

וְשַׁבְעָה וְיָשָׂא שְׁבַע יְהוֹשֻׁעַ יוֹבְלִים לְפָנָיו אֲרוֹן יְהוָה:  
 और-सात उठाए याजक और-सात आगे मेढ़े-के-सींग-के नरसिंगे सात उठाए याजक और-सात यहोवा-के संदूक  
[H3068](#) [H0727](#) [H6440](#) [H3104](#) [H7782](#) [H7651](#) [H5375](#) [H3548](#) [H7651](#)

इस प्रकार नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को इकट्ठा किया। यहोशू ने उनसे कहा, “यहोवा के पवित्र सन्दूक को ले चलो और सात याजकों को तुरही ले चलने को कहो। उन याजकों को सन्दूक के सामने चलना चाहिए।”

7 וַיֹּאמְרוּ (וַיֹּאמְרוּ) אֶל-הָעָם עֲבְרוּ וְסָבוּ אֶת-הָעִיר וְהַחֲלוּץ יַעֲבֹר לְפָנָיו אֲרוֹן  
 और-कहा और-कहा से लोगो जाओ और-घेरो को और-सशस्त्र नगर आगे जाओ संदूक  
[H0727](#) [H6440](#) [H0853](#) [H5437](#) [H0413](#) [H0559](#) [H0559](#)

יְהוָה:  
 यहोवा-के  
[H3068](#)

तब यहोशू ने लोगों को आदेश दिया, “जाओ! और नगर के चारों ओर बल परिक्रमा करो। अस्त्र—शस्त्र वाले सैनिक यहोवा के पवित्र सन्दूक के आगे चलें।”

8 וַיְהִי כִּשְׁמֹרָה יְהוֹשֻׁעַ אֶל-הָעָם וְשַׁבְעָה נִשְׂאִים הַכֹּהֲנִים וְשַׁבְעָה שׁוֹפְרוֹת  
 और-हुआ और-कहा यहोशू-के से लोगो और-सात लोगो और-सात उठाते-हुए याजक मेढ़े-के-सींग-के नरसिंगे सात उठाते-हुए याजक  
[H7782](#) [H7651](#) [H5375](#) [H3548](#) [H7651](#) [H0413](#) [H3091](#) [H0559](#) [H1961](#)

הַלְלוּ הַיּוֹבְלִים לְפָנָיו יְהוָה עָבְרוּ וְתִקְעוּ בְּשׁוֹפְרוֹת וְאֲרוֹן בְּרִית יְהוָה יֵלֵךְ  
 मेढ़े-के-सींग-के आगे यहोवा-के जा-रहे-थे और-बजा-रहे-थे नरसिंगों-में और-संदूक वाचा और-संदूक यहोवा-की जा-रहा-था  
[H1980](#) [H3068](#) [H1285](#) [H0727](#) [H7782](#) [H8628](#) [H3068](#) [H6440](#) [H3104](#)

אֲחֵרֵיהֶם:  
 उनके-पीछे

जब यहोशू ने लोगों से बोलना पूरा किया तो यहोवा के सामने सात याजकों ने चलना आरम्भ किया। वे सात तुरहियाँ लिए हुए थे। चलते समय वे तुरहियाँ बजा रहे थे। यहोवा के सन्दूक को लेकर चलने वाले याजक उनके पीछे चल रहे थे।

9 וְהַחֲלוּץ יַעֲבֹר לְפָנָיו יְהוָה (תִּקְעוּ) וְתִקְעוּ בְּשׁוֹפְרוֹת וְהַחֲלוּץ יַעֲבֹר לְפָנָיו יְהוָה  
 और-सशस्त्र आगे याजकों-के बजाने-वाले बजाने-वाले नरसिंगों और-पछला और-पछला जा-रहे-थे पीछे  
[H1980](#) [H0622](#) [H7782](#) [H8628](#) [H8628](#) [H3548](#) [H6440](#) [H1980](#)

הָאֲרוֹן יֵלֵךְ לְפָנָיו יְהוָה וְתִקְעוּ בְּשׁוֹפְרוֹת:  
 संदूक-के जाते-हुए और-बजाते-हुए नरसिंगों-में  
[H1980](#) [H0727](#) [H7782](#) [H8628](#)

अस्त्र—शस्त्र धारी सैनिक याजकों के आगे चल रहे थे। पवित्र सन्दूक के पीछे चलन वाले लोग तुरही बजा रहे थे तथ कदम मिला रहे थे।

10 וְאֵת-הָעָם צִוָּה יְהוֹשֻׁעַ לֵאמֹר לֹא תִרְעוּ וְלֹא-תִשְׁמְעוּ אֶת-קוֹלְכֶם  
 और-को लोगो आज्ञा-दी यहोशू-ने कहते-हुए ललकारना नहीं ललकारना और-नहीं सुनाना को अपनी-आवाज  
[H0853](#) [H8085](#) [H3808](#) [H7321](#) [H3808](#) [H0559](#) [H3091](#) [H6680](#) [H0853](#)

וְלֹא-תִצָּא מִפִּיכֶם דְּבַר-עֵד תִּקְחוּ וְלֹא-תִרְעוּ:  
 और-नहीं निकले तुम्हारे-मुख-से शब्द तब तक दिन कहे-मेरे अलिङ्ग तुमसे ललकारो ललकारो और-ललकारोगे-तुम  
[H7321](#) [H7321](#) [H0413](#) [H0559](#) [H3117](#) [H5704](#) [H1697](#) [H6310](#) [H3318](#) [H3808](#)

किन्तु यहोशू ने लोगों से कहा था कि युद्ध की ललकार न दें। उसने कहा, “ललकारो नहीं। उस दिन तक तुम कोई ललकार न दो, जिस दिन तक मैं न कहूँ। मेरे कहने के समय तुम ललकार सकते हो!”

11 וַיָּסֹבּוּ אֲרוֹן יְהוָה אֶת־הָעִיר חֲכָכָר וַיָּבֹאוּ אֵלָיו הַמַּחֲנֶה וַיִּלְּנוּ  
 और-ठहरे छावनी-में और-आए एक बार चक्कर-लगाकर नगर को यहोवा-के संदूक-ने और-घुमाया  
[H4264](#) [H0935](#) [H0259](#) [H6471](#) [H0853](#) [H3068](#) [H0727](#) [H5437](#)

בְּמַחֲנֶה :  
 — छावनी-में  
[H4264](#)

इसलिए यहोशू न याजकों को यहोवा के पवित्र सन्दूक को नगर के चारों ओर ले जाने का आदेश दिया। तब वे अपने डेरे में लौट गए और रात भर वहीं ठहरे।

12 וַיִּשְׂאוּ הַכֹּהֲנִים אֶת־אֲרוֹן יְהוָה וַיֹּשְׁעוּ בַבֹּקֶר יְהוֹשֻׁעַ וְאִישׁוֹ אֶת־הַיָּדָיִם וַיִּשְׂאוּ אֶת־אֲרוֹן יְהוָה  
 और-उठाया सुबह-में यहोशू और-जल्दी-उठा याजकों-ने और-उठाया सुबह-में यहोशू और-जल्दी-उठा  
[H3068](#) [H0727](#) [H0853](#) [H3548](#) [H5375](#) [H1242](#) [H3091](#) [H7925](#)

दूसरे दिन, सवेरे यहोशू उठा। याजक फिर यहोवा के पवित्र सन्दूक को लेकर चल

13 וַיִּשְׂבְּעוּ אֶת־הַיָּדָיִם וַיִּשְׂבְּעוּ אֶת־הַיָּדָיִם וַיִּשְׂבְּעוּ אֶת־הַיָּדָיִם וַיִּשְׂבְּעוּ אֶת־הַיָּדָיִם  
 और-सात और-सात और-सात और-सात याजक उठाते-हुए उठाते-हुए उठाते-हुए उठाते-हुए  
[H1980](#) [H1980](#) [H3068](#) [H0727](#) [H6440](#) [H3104](#) [H7782](#) [H7651](#) [H5375](#) [H3548](#) [H7651](#)

וַתִּקְעוּ בַשּׁוֹפְרוֹת וַתִּקְעוּ בַשּׁוֹפְרוֹת וַתִּקְעוּ בַשּׁוֹפְרוֹת וַתִּקְעוּ בַשּׁוֹפְרוֹת  
 और-बजा-रहे-थे और-बजा-रहे-थे और-बजा-रहे-थे और-बजा-रहे-थे नरसिगों-में नरसिगों-में नरसिगों-में नरसिगों-में  
[H3068](#) [H0727](#) [H1980](#) [H0622](#) [H6440](#) [H1980](#) [H7782](#) [H8628](#)

וַיִּהְיוּ הַיָּדָיִם (וְהַיָּדָיִם) וַיִּהְיוּ הַיָּדָיִם  
 जाते-हुए जाते-हुए जाते-हुए जाते-हुए नरसिगों-में और-बजाते-हुए और-बजाते-हुए  
[H7782](#) [H8628](#) [H1980](#) [H1980](#)

और सातों याजक सात तुरहियाँ लेकर चले। वे यहोवा के पवित्र सन्दूक के सामने तुरहियाँ बजाते हुए कदम से कदम मिला रहे थे। उनके सामने अस्त्र—शस्त्र धारी सैनिक चल रहे थे। यहोवा के सन्दूक के पीछे चलने वाले सैनिक याजक तुरहियाँ बजाते हुए कदम मिला रहे थे।

14 וַיִּסְבּוּ אֶת־הָעִיר בְּיוֹם הָעִיר אֶת־הָעִיר בְּיוֹם הָעִיר אֶת־הָעִיר  
 और-घेरा  
[H3117](#) [H8337](#) [H3541](#) [H4264](#) [H7725](#) [H0259](#) [H6471](#) [H8145](#) [H3117](#) [H0853](#) [H5437](#)

इसलिए दूसरे दिन, उन सब ने एक बार नगर के चारों ओर चक्कर लगाया और तब वे अपने डेरों में लौट गए। उन्होंने लगातार छः दिन तक यह किया।

15 וַיִּהְיוּ הַיָּדָיִם וַיִּהְיוּ הַיָּדָיִם וַיִּהְיוּ הַיָּדָיִם וַיִּהְיוּ הַיָּדָיִם  
 और-हुआ  
[H4941](#) [H0853](#) [H5437](#) [H7837](#) [H5927](#) [H7925](#) [H7637](#) [H3117](#) [H1961](#)

וַיִּהְיוּ הַיָּדָיִם וַיִּהְיוּ הַיָּדָיִם וַיִּהְיוּ הַיָּדָיִם  
 इस सात बार  
[H6471](#) [H7651](#) [H0853](#) [H5437](#) [H1931](#) [H3117](#) [H7535](#) [H6471](#) [H7651](#) [H2088](#)

सातवें दिन वे भोर में उठे और उन्होंने नगर के चारों ओर सात चक्कर लगाए। उन्होंने उसी प्रकार नगर का चक्कर लगाया जिस तरह वे उसके पहले लगा चुके थे, किन्तु उस दिन उन्होंने सात चक्कर लगाए।

16 וַיִּהְיוּ הַיָּדָיִם וַיִּהְיוּ הַיָּדָיִם וַיִּהְיוּ הַיָּדָיִם  
 और-हुआ  
[H7321](#) [H0413](#) [H3091](#) [H0559](#) [H7782](#) [H3548](#) [H8628](#) [H7637](#) [H6471](#) [H1961](#)

כִּי־נָתַן יְהוָה לְכֶם אֶת־הָעִיר  
 क्योंकि दिया-है यहोवा-ने तुम्हें यहोवा-ने तुम्हें  
[H0853](#) [H3068](#) [H5414](#)

सातवीं बार जब उन्होंने नगर का चक्कर लगाया तो याजकों ने अपनी तुरहियाँ बजाईं। उस समय यहोशू ने आदेश दिया: “अब निनाद करो! यहोवा ने यह नगर तुम्हें दिया है।”

17  
 תָּחִיבָהּ הַחַיִּים רָחֵב הַחַיִּים הַחַיִּים  
 जीवित-रहे वेश्या राहाब केवल  
 H2421 H2181 H7343 H7535 H3068  
 וְכָל-אֲשֶׁר-בָּהּ  
 और-सब जो उसमें  
 H3605 H1931  
 וְהָיְתָה הָעִיר חָרָם  
 और-हीगा नगर शापित  
 H1961

שָׁחַתְנוּ: אֲשֶׁר הַמְּלָאכִים אֶת-הַחֲבָאֵתָה כִּי בְּבֵית אֵתָה  
 भेजा-था-हमने जिन्हें दूतों को छिपाया-उसने क्योंकि घर-में उसके-साथ जो और-सब वह  
 H7971 H4397 H0853 H2244 H0854 H3605 H1931

नगर और इसमें की हर एक चीज यहोवा की हैं। केवल वेश्या राहाब और उसके घर में रहने वाले लोग ही जीवित रहेंगे। ये मारे नहीं जाने चाहिए क्योंकि राहाब ने उन दो गुप्तचरों की सहायता की थी, जिन्हें हमने भेजा था।

18  
 וְרָקַב וְרָקַב וְרָקַב וְרָקַב וְרָקַב  
 और-केवल और-केवल और-केवल और-केवल और-केवल  
 H7535 H8104 H3947 H6435 H8104 H7535

וְשָׂמְרוּם וְשָׂמְרוּם וְשָׂמְרוּם וְשָׂמְרוּם  
 और-बनाओगे और-बनाओगे और-बनाओगे और-बनाओगे  
 H0853 H5916 H3478 H4264 H0853

यह भी याद रखो कि हमें इसके अतिरिक्त सभी चीजों को नष्ट करनी हैं। उन चीजों को मत लो। यदि तुम उन चीजों को लेते हो और अपने डेरों में लाते हो तो तुम स्वयं नष्ट हो जाओगे और तुम अपने सभी इस्राएली लोगों पर भी मुसीबत लाओगे

19  
 וְכָל-כֶּסֶף וְכָל-כֶּסֶף וְכָל-כֶּסֶף  
 और-सब और-सब और-सब  
 H3605 H3701 H2091 H3627 H2091 H3605

וְהָיָה יְבוּאָה  
 और-हीगा आएगा  
 H0935 H3068

सभी चाँदी, सोने, काँसे तथा लोहे की बनी चीजें यहोवा की हैं। ये चीजें यहोवा के खजाने में ही रखी जानी चाहिए।”

20  
 וַיִּרְעוּ וַיִּרְעוּ וַיִּרְעוּ  
 और-ललकार और-ललकार और-ललकार  
 H7321 H8628 H7782 H1961 H8085 H0853 H7782

וַיִּרְעוּ וַיִּרְעוּ וַיִּרְעוּ  
 और-ललकार और-ललकार और-ललकार  
 H7321 H8643 H5307 H2346 H8478 H5927 H0376

וַיִּנְהָוּ וַיִּנְהָוּ וַיִּנְהָוּ  
 अपने-सामने अपने-सामने अपने-सामने  
 H5048 H3920 H0853

याजकों ने तुरहियाँ बजाईं। लोगों ने तुरहियों की आवाज सुनी और ललकार लगानी आरम्भ की। दीवारें गिरीं और लोग सीधे नगर में दौड़ पड़े। इस प्रकार इस्राएल के लोगों ने नगर को हराया।

21  
 וַיִּחַרְיֵמוּ וַיִּחַרְיֵמוּ  
 और-नाश-किया और-नाश-किया  
 H0853 H3605 H0376 H5704 H5288 H2205 H5704

וְעָרַב וְעָרַב וְעָרַב  
 और-तक और-तक और-तक  
 H5704 H2719 H6310 H2543 H7716 H7794 H5704

लोगों ने नगर की हर एक चीज नष्ट की। उन्होंने वहाँ के हर एक जीवित प्राणी को नष्ट किया। उन्होंने युवक, वृद्ध, युवतियों, वृद्धाओं, भेड़ों और गधों को मार डाला।

22 וְלִשְׁנַיִם הָאֲנָשִׁים הַמְרֻגְלִים אֶת-הָאָרֶץ אָמַר יְהוֹשֻׁעַ בָּאוּ בֵּית-הָאִשָּׁה הַזֹּנָה  
 और-दोनों-से और-दोनों-से भेदियों को देश कहा यहोशू-ने जाओ घर स्त्री-के वेश्या  
[H2181](#) [H0802](#) [H0935](#) [H3091](#) [H0559](#) [H0776](#) [H0853](#) [H7270](#) [H0376](#) [H8147](#)

וְהוֹצִיאֻהוּ מִשָּׁם אֶת-הָאִשָּׁה וְאֶת-כָּל-אֲשֶׁר-לָהּ כַּאֲשֶׁר-לָהּ :  
 और-निकालो और-से वहाँ-से स्त्री को और-को सब और-को उसका जो  
[H7650](#) [H3605](#) [H0853](#) [H0802](#) [H0853](#) [H8033](#) [H3318](#)

यहोशू ने उन व्यक्तियों से बातों की जिन्हें उसने प्रदेश के विषय में पता लगाने भेजा था। यहोशू ने कहा, “उस वेश्या के घर जाओ। उसे बाहर लाओ और उन लोगों को भी बाहर लोओ जो उसके साथ हैं। यह तुम इसलिए करो कि तुमने उसे वचन दिया है।”

23 וַיָּבֹאוּ הַנְּעָרִים הַמְרֻגְלִים וַיִּצְיָאוּ אֶת-רָחָב וְאֶת-אָבִיהָ וְאֶת-אִמָּהּ  
 और-गाए और-गए भेदी जवान और-निकाला और-को राहाब और-को उसके-पिता और-को उसकी-माता  
[H0517](#) [H0853](#) [H0001](#) [H0853](#) [H7343](#) [H0853](#) [H3318](#) [H7270](#) [H5288](#) [H0935](#)

וְאֶת-אָחִיהָ וְאֶת-כָּל-אֲשֶׁר-לָהּ וְאֶת-כָּל-מִשְׁפַּחַתָּיהָ הוֹצִיָּאוּ וַיְנַיְחֻם  
 और-को और-को उसके-भाइयों और-को सब और-को उसका जो सब और-को और-रखा  
[H3240](#) [H3318](#) [H4940](#) [H3605](#) [H0853](#) [H3605](#) [H0853](#) [H0251](#) [H0853](#)

מְחוּץ לְמַחֲנֶה יִשְׂרָאֵל :  
 बाहर छावनी-के इस्राएल-की  
[H3478](#) [H4264](#) [H2351](#)

दोनों व्यक्ति घर में गए और राहाब को बाहर लाए। उन्होंने उसके पिता, माँ, भाईयों, उसके समूचे परिवार और उसके साथ के अन्य सभी को बाहर निकाला। उन्होंने इस्राएल के डेरे के बाहर इन सभी लोगों को सुरक्षित रखा।

24 וְהָעִיר וְהָנָגֶר-וּשְׂרָפוֹ בָּאָשׁ וְכָל-אֲשֶׁר-בָּהּ וְכָל-הַנְּחֻשֶׁת וְכָלִי  
 और-नगर-को और-नगर-को जला-दिया आग-से और-सब और-सब जो उसमें उसके-पिता-के और-सोना और-वस्तुएँ और-की ताँबे-की  
[H3627](#) [H2091](#) [H3701](#) [H7535](#) [H3605](#) [H0784](#) [H8313](#)

וְהַבְּרִיָּל וְנָתַן אוֹצָר בֵּית-יְהוֹוָה :  
 और-लोहे-की और-लोहे-की दिया खजाने-में और-के घर यहोवा-के  
[H3068](#) [H0214](#) [H5414](#) [H1270](#)

तब इस्राएल के लोगों ने सारे नगर को जला दिया। उन्होंने सोना, चाँदी, काँसा, और लोहे से बनी चीजों के अतिरिक्त सभी चीजों को जला दिया। ये चीजें यहोवा के खाजाने के लिए बचा ली गईं।

25 וְאֶת-רָחָב הַזֹּנָה וְאֶת-בֵּית-אָבִיהָ וְאֶת-כָּל-אֲשֶׁר-לָהּ הָחִיָּה יְהוֹשֻׁעַ  
 और-को और-को राहाब वेश्या और-को और-को उसके-पिता-के घर उसका जो जिलाया यहोशू-ने  
[H3091](#) [H2421](#) [H3605](#) [H0853](#) [H0001](#) [H0853](#) [H2181](#) [H7343](#) [H0853](#)

וְהַיּוֹשֵׁב בְּקֶרֶב יִשְׂרָאֵל עַד-הַיּוֹם הַזֶּה וְהַמְלֵאכִים אֶת-הַחֲבִיאָה כִּי-הָיָה יְהוֹשֻׁעַ  
 और-रही और-रही बीच-में इस्राएल-के तक इस दिन तक इस्राएल-के क्योंकि इस दिन तक इस्राएल-के  
[H4397](#) [H0853](#) [H2244](#) [H2088](#) [H3117](#) [H5704](#) [H3478](#) [H7130](#) [H3427](#)

שָׁלַח יְהוֹשֻׁעַ לְרַגְלָאֵם יְרִיחוֹ :  
 भेजा-था यहोशू-ने जासूसी-करने-को और-को यरीहो को  
[H3405](#) [H0853](#) [H7270](#) [H3091](#) [H7971](#)

यहोशू ने राहाब, उसके परिवार और उसके साथ के व्यक्तियों को बचा लिया। यहोशू ने उन्हें जीवित रहने दिया क्योंकि राहाब ने उन लोगों की सहायता की थी, जिन्हें उसने यरीहो में जासूसी करने के लिए भेजा था। राहाब अब भी इस्राएल के लोगों में अपने वंशजों के रूप में रहती है।

יָקוּם उठेगा	אֲשֶׁר जो	יְהוָה यहोवा-के <a href="#">H3068</a>	לִפְנֵי सामने <a href="#">H6440</a>	הָאִישׁ पुरुष <a href="#">H0376</a>	אֲרוּר शापित <a href="#">H0779</a>	לֵאמֹר कहते-हुए <a href="#">H0559</a>	הָהִיא उस <a href="#">H1931</a>	בְּעֵת समय-में <a href="#">H6256</a>	יְהוֹשֻׁעַ यहोशू-ने <a href="#">H3091</a>	וַיִּשְׁבַּע और-शपथ-खिलाई <a href="#">H7650</a>
וּבְצַעֲרוֹ और-अपने-छोटे-पर <a href="#">H6810</a>	וַיִּסְדֹּג नींव-डालेगा-उसकी <a href="#">H3245</a>	בְּבִכְרוֹ अपने-पहलौठे-पर <a href="#">H1060</a>	יְרִיחוֹ यरीहो <a href="#">H3405</a>	אֶת- को <a href="#">H0853</a>	הַזֶּאת इस <a href="#">H2063</a>	הָעִיר नगर <a href="#">H0853</a>	אֶת- को <a href="#">H0853</a>	וַבְּנָהּ और-बनाएगा <a href="#">H1129</a>	וַיִּצַּב खड़ा-करेगा <a href="#">H5324</a>	הַדְּלָתֶיהָ: उसके-दरवाजों

उस समय, यहोशू ने शपथ के साथ महत्वपूर्ण बातें कहीं उसने कहा: “कोई व्यक्ति जो यरीहो नगर के पुनः निर्माण का प्रयत्न करेगा यहोवा की ओर से खतरे में पड़ेगा। जो व्यक्ति नगर की नींव रखेगा, अपने पहलौठे पुत्र को खोएगा। जो व्यक्ति फाटक लगाएगा वह अपने सबसे छोटे पुत्र को खोएगा।”

הָאָרֶץ: देश-में <a href="#">H0776</a>	בְּכָל- सारे <a href="#">H3605</a>	שָׁמַעוּ उसकी-कीर्ति <a href="#">H8089</a>	וַיְהִי और-थी <a href="#">H1961</a>	יְהוֹשֻׁעַ यहोशू-के <a href="#">H3091</a>	אֶת- साथ <a href="#">H0854</a>	יְהוָה यहोवा <a href="#">H3068</a>	וַיְהִי और-था <a href="#">H1961</a>
--	--	--	---	---	--------------------------------------	--	---

यहोवा, यहोशू के साथ था और इस प्रकार यहोशू पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया।